

Money (मुद्रा)



What is Money (मुद्रा क्या है)

Money → Any Commodity
(कोई भी वस्तु) ↗ Generally Accepted
Medium of Exchange
(विनापन के माध्यम)

Legal Tender Money
(कानूनी विवरण / वैध मुद्रा)

↓

Currency
करेसी

Must be Accepted by all
(सबको द्वारा वैधता दिलायी जाए)

Money → जारी → रस्कार के द्वारा

Coins + Paper Notes
(सिक्के + पेपर नोट्स)

Legal Tender Money

(अधिकृत)

Limited (सीमित
Legal Tender कानूनी निवधा
रुपा)

Coins & ₹1 Note

Unlimited
Legal Tender

All the notes
(सभी Notes)

Functions of Money

(मुद्रा के कार्य)

Primary functions

(प्राथमिक कार्य)

- ① Medium of Exchange
(विनिमय का माध्यम)
- ② Measure of Value / Unit of Account
(मूल्य का मापन / दीर्घकालीन इकाई)

Secondary functions

(द्वितीयक कार्य)

- ① Store of Value (मूल्य संचय)
- ② Standard of Deferred Payment
(विलोबित / अवधारणा अवलान का मानक) → Debt Settlement /
- ③ Transfer of Value Future Payment
(मूल्य का संवानात्पत्ति)

Barter System [वस्तु विनेपय प्रणाली]

Double
Coincidence
of Wants
कूटवाहाको का
कौहरा रस्मोग) Wheat

C-C System

C → Commodity (जीवनस्त)



**Functions of
Money**

(मुद्रा के कार्य)


**Primary
Functions**

(प्राथमिक कार्य)

**Secondary
Functions**

(द्वितीयक कार्य)

वस्तु विनिमय प्रणाली (The Barter System)



वस्तुओं के साथ वस्तुओं का आदान-प्रदान

वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्याएं (Major problems of the Barter system)

- इच्छाओं का दोहरा संयोग
(Double coincidence of wants)
- धन को आगे ले जाना कठिन
(Difficult to carry forward wealth)
- खाते की मानक इकाई का अभाव
(Absence of a standard unit of account)

Features of Money (मुद्रा की विशेषताएं)

रामान रूप

Acceptability
(स्वीकार्यता)

Durability
(स्थायित्व)

₹50×4 Notes → Same
₹100×2 Notes → Value

Fungibility
(वैकल्पिकता)

प्रतिस्थापना

Limited Supply

(सीमित आपूर्ति)

Divisibility
(विभाज्यता)

Portability
(सुवाहता)

Demand for money & Supply of Money

(मुद्रा की गांग एवं मुद्रा की अपूर्ति)

Demand for Money



आणविक (Dependent)

Level of Income (आय का स्तर)

Income (Y) ↑ Demand for
Money (मुद्रा की पाठी) ↑

Interest Rate (-ve)
(सेवा दर)


$IR \uparrow \Downarrow$ Money की DD ↓
(सेवा दर)





Supply of Money (मुद्रा की आपूर्ति)



The supply of money is independent
on the level of Income & Interest Rate
i.e. M_s doesn't effected by Y & $I.R$



Determination of Interest Rate in the Economy (अर्थप्रणाली में धोग दर का निर्धारण)



Demand / Supply

Decrease
 $\frac{Q_D}{P_D}$
 Rightward shift
 $\frac{Q_S}{P_S}$

Increase
 $\frac{Q_D}{P_D}$
 Decrease
 $\frac{Q_S}{P_S}$
 Leftward shift
 $\frac{Q_D}{P_D}$

